

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010—वैशाख 24, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 1640-इक्कीस-अ(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 7 जनवरी 2010 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 3, सन् 2010) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उस शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द, पढ़ा जाए:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है	शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाए
(1)	पृष्ठ पंक्ति	(3)
Chapter VI-A heading-	122 10	Chapter VI-A of heading

क्र. 1641-इक्कीस-अ(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 1 अगस्त 2009 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 9, सन् 2009) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, पढ़े जाएं:—

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	सारणी		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं.
	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं		
(1)	पृष्ठ	पंक्ति	(3)
रजिस्ट्रीकरण	760 (2)	31	रजिस्ट्रीकरण
उपाधारा	760 (2)	32	उपधारा
रजिस्ट्रीकरण	760 (2)	33	रजिस्ट्रीकरण
जिससे की	760 (3)	3	जिससे कि
स्थित हो,	760 (4)	8	स्थिति हो,
पूजे	760 (5)	3	पुजे
सोलक	760 (5)	11	सोलर
Section	760 (14)	11	Schedule

क्र. 1642-इक्कीस-अ(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 18 दिसम्बर 2009 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 20, सन् 2009) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उस शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द, पढ़ा जाए:—

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	सारणी		शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाए.
	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है		
(1)	पृष्ठ	पंक्ति	(3)
मध्यप्रदेश ग्राम	1246	15	मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय

क्र. 1643-इक्कीस-अ(प्रा.) शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 24 दिसम्बर 2009 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 22, सन् 2009) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उस शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द, पढ़ा जाए:—

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	सारणी		शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाए.
	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है		
(1)	पृष्ठ	पंक्ति	(3)
udner	1264	29	under

राजेश यादव, अपर सचिव.

भाग ४ (ग)—कुछ नहीं